

**I. STATUTORY RESOLUTION SEEK-
ING DISAPPROVAL OF THE PUN-
JAB DISTURBED AREAS ORDI-
NANCE, 1983—contd.**

**II. THE PUNJAB DISTURBED AREAS BILL,
1983.**

**ED. STATUTORY RESOLUTION SEEK-
ING DISAPPROVAL OF THE
CHANDIGARH DISTURBED
AREAS ORDINANCE, 1983—contd.**

**IV. THE CHANDIGARH DISTURBED
AREAS BILL, 1983.**

**V. STATUTORY RESOLUTION SEEK-
ING DISAPPROVAL OF THE
ARMED FORCES (PUNJAB AND
CHANDIGARH) SPECIAL POWERS
ORDINANCE 1983—contd.**

*

**VI. THE ARMED FORCES (PUNJAB
AND CHANDIGARH) SPECIAL
POWERS BILL, 1983.**

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश) :
उपसभापति महोदय, पंजाब और चण्डीगढ़ को विशुद्ध क्षेत्र घोषित करने का जो विधेयक आया है, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि इनको अगर विशुद्ध क्षेत्र घोषित नहीं किया जाता तो अच्छा होता। जहाँ तक पंजाब की स्थिति का संबंध है, उसके बारे में माननीय सदस्यों ने अपनी बातों को सदन के सामने रखा है। परन्तु शासना-रूढ़ दल के मित्रों ने जो बातें सदन में रखी हैं और जो बातें हमने सुनी हैं उनसे निश्चित रूप से इस प्रकार का निष्कर्ष निकलता है कि इनके नेता ही स्वयं यह नहीं चाहते हैं कि पंजाब की समस्या का कोई समाधान निकाला जाय क्योंकि ये लोग बार-बार यह आरोप लगाते हैं कि विरोधी दल के लोग अगर चाहें तो अकालियों के पास जाकर बैठ जायें और उनसे कहें कि इस समस्या का समाधान निकाला जाय और अपने आपको उससे बरी रखना चाहते हैं।

ये लोग बार-बार यह आरोप लगाते हैं कि पंजाब और चण्डीगढ़ को जो आज विशुद्ध क्षेत्र घोषित किया जा रहा है, इसके लिए विरोधी पक्ष के लोग जिम्मेवार हैं। वे हम पर आरोप लगा रहे हैं कि विरोधी दल के लोग पंजाब की समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं। जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने कहा है, पंजाब की समस्या आज जो इतने विकराल रूप में सामने आई है उसके लिए शासन-रूढ़ दल के आपसी झगड़े जिम्मेदार हैं। उनके आपस के विघटन के कारण पंजाब की स्थिति ने यह रूप लिया है। सदन के अन्दर और समाचार-पत्रों में यह बात कई बार सामने आई है कि भूतपूर्व गृह मंत्री और अभी कुछ दिन पहले तक अर्थात् राष्ट्रपति शासन लागू होने के पहले तक जो वहाँ पर मुख्य मंत्री थे उन दोनों में आपस में लड़ाई थी और उस का ध्यान में रखकर जो आज वहाँ पर विभिन्न प्रकार के विघटनकारी और उग्रवादी तत्व सामने आए हैं, उनको प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई। इसका प्रत्यक्ष रूप से उदाहरण यह है कि लाला जगत नारायण की हत्या हुई, और हत्याएँ हुई लेकिन हत्यारों को पकड़ा नहीं गया। अगर उनको उस वक्त कड़ा दंड दिया जाता तो उग्रवादी तत्वों की हिम्मत न बढ़ती कि वे सर उठा सकते। लेकिन यह नहीं किया गया। यह इसलिये नहीं किया गया क्योंकि आपस में उनकी लाइन बिगड़ी हुई थी। एक उनके पक्ष का और दूसरा दूसरे के पक्ष का और उस समय पार्टी के अंदर ही, इन दो पक्षों की रस्साकशी ने पंजाब को इस प्रकार की ज्वाला में धकेल दिया। आज पंजाब आपके नियंत्रण के बाहर है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि पंजाब उनके नियंत्रण के बाहर है। इस असफलता

को, इस विफलता को आपकी सरकार ने खुद स्वीकार किया है और खुद ही अपनी विफलता स्वीकार करने के बाद सरकार यह बोले कि विरोधी दल के लोग नहीं चाहते हैं इसलिये समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, मैं तो समझता हूँ कि इससे बढ़कर अपने ऊपर तमाचा लगाना और क्या हो सकता है। साथ ही साथ उन्होंने स्वीकार किया है कि हम शासन करने में असफल हैं, असक्षम हैं, इसलिये इसको विलुब्ध क्षेत्र घोषित करके हमको विशेषाधिकार दिये जायें। इसमें जो विशेषाधिकार दिये जा रहे हैं इसके अन्दर यह कहा गया है, इसमें यह साफ है कि हवलदार को इतना अधिकार दे दिया जायेगा कि वह किसी को भी जाकर पकड़ सकता है, किसी को भी घर से निकाल सकता है, उसकी जांच पड़ताल कर सकता है। आज जो स्थिति है वह यह है कि जो उग्रवादी हैं, उन उग्रवादियों की तरफ सरकार ध्यान नहीं देती, वह पकड़े नहीं जा रहे हैं, वे हत्याएँ कर रहे हैं लेकिन पकड़े नहीं जा रहे हैं। निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, बावजूद इसके कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू है। हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन का स्वागत किया था। लेकिन यह इस अपेक्षा से किया था कि पंजाब के अन्दर कड़ाई होगी, उग्रपंथियों का दमन होगा। लेकिन उग्रपंथियों का दमन नहीं हुआ। इसके पहले मोटर साइकिल से जो जाते थे उनको रोक दिया जाता था और पूछते थे कि मोटर साइकिल से कहाँ जा रहे हो? अगर वे रुकते नहीं थे तो गोली मार दी जाती थी। यानी इस तरह की हरकतें पंजाब के अन्दर की जाती हैं और निरपराध लोग उसमें मारे जाते हैं। लेकिन जो उग्रवादी तत्व हैं वे अभी भी स्वतंत्र घूम रहे हैं। अभी ही बस से खींचकर लोगों को मार डाला गया। मैं पूछना चाहता

हूँ कि क्या कोई पकड़ा गया? मैं आशा करता हूँ कि गृह मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सदन को बतायेंगे कि कल जो चार हत्याएँ हुई उस संबंध में कितने लोग पकड़े गये। इस तरीके से अनेक हत्याएँ वहाँ पर हो रही हैं और आतंक का एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कुछ मुट्ठी भर लोग एक साम्प्रदायिक तनाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुट्ठी भर का प्रयोग मैं इसलिये कर रहा हूँ क्योंकि सामान्य सिख और सामान्य हिन्दू इनका आपस में कोई तनाव नहीं है। लेकिन मुट्ठी-भर लोग इस प्रकार का साम्प्रदायिक तनाव पैदा करके सामान्य सिख के अन्दर भी इस तरह की भावना [उत्समाध्यक्ष श्री विनेश गोल्डवामी पीठासीन हुए] डालने की कोशिश कर रहे हैं। इन मुट्ठी-भर लोगों को पकड़ने में वहाँ का प्रशासन अपने को असक्षम पा रहा है, प्रशासन इन को नियंत्रित करने में असफल सिद्ध हो रहा है और आरोप यह लगाया जा रहा है कि विरोधी दल गलत है। यह विरोधी दलों की गलती तो नहीं हो सकती है। सरकार स्वयं अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूँ कि आपको स्वयं स्वीकार करना चाहिये कि आप शासन चलाने में विफल हैं। राष्ट्रपति शासन तो लागू कर दिया लेकिन असम्बली को भंग नहीं किया। क्या पंजाब के अन्दर दूसरा मुख्य मंत्री नहीं चुना जा सकता था। वहाँ पर एम० एल० ए० हैं, आप उनके माध्यम से दूसरा मुख्य मंत्री चुनते। वह मुख्य मंत्री शायद प्रशासन ढंग से चलाता और राष्ट्रपति शासन की अवधि आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन यह नहीं किया जा रहा है। असम्बली बरकरार है, एम० एल० ए० बरकरार हैं, डिस्ट्रिक्ट एरिया घोषित कर दिया,

[श्री कलराज मिश्र]

पंजाब का नाटक अभी बरकरार है। लेकिन उसे डिस्टर्ब एरिया घोषित करने के बाद वहाँ पर क्या कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हो रहा है? हमें तो कोई सुधार नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रशासन चलाने के लिये सरकार यह घोषणा करती है कि हम शासन ठीक ढंग से चला सकते हैं, प्रशासन कड़ाई के साथ चला सकते हैं तो उस कड़ाई का उपयोग क्यों नहीं नही रहा है? अगर ऐसी बात है तो उग्रवादियों पर, उन गुंडों पर, उन असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? बार-बार दुहाई देते हैं कि हमारी प्रधानमंत्रों ने यह कहा, वह कहा लेकिन इससे कोई काम नहीं बनता। आप प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहे हैं? शांति स्थापित करने के लिये और पंजाब में आम नागरिकों के सामने जो एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको रोकने के लिये आप क्या कर रहे हैं? इस बारे में कुछ किया गया है यह दिखाई नहीं दे रहा है। उल्टे विरोधी दलों को गाली दी जा ही है। मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय से, यद्यपि पंजाब के बारे में जब पिछली बार बहस चल रही थी तो गृह मंत्री जी ने विरोधी दलों से आग्रह किया था कि आप जाइये और अकालियों के साथ बात करिये और समस्या का समाधान निकालने की दृष्टि से उनसे चर्चा चलाये और इसके लिये हमारी तरफ से जो व्यवस्था की जा सकती है वह हम करेंगे। मैं समझता हूँ यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से बह दटना चाहते हैं। अपनी जिम्मेदारी से दटना नहीं चाहिये। उन को यह चाहिये कि सब लोग मिल कर चलें। हम साथ में चलते हैं वहाँ बैठते हैं। अगर वह कहते हैं दरबार साहब जा कर बैठ कर अकालियों को बाध्य किया जाए कि वे

अपना मोर्चा वापिस लें तो सब चलें। शासन में बने हुए अगर आज यह महसूस करते हैं कि विरोधी दलों के लोगों का और साथ ही साथ समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले ऐसे प्रमुख नागरिकों का सहयोग लेकर पंजाब की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है तो सब को आमन्त्रित आप करिये। सब को आमन्त्रित कर के आप अगुवाई करिये वहाँ जा कर बैठिये। पंजाब का ही मालला नहीं है। पंजाब की समस्या को देख कर सारा देश इस समय तबाही की दिशा में जा रहा है। इसलिए पंजाब के मामले में सब का सामूहिक तौर पर सहयोग ले कर निपटाने की दृष्टि से आपने कोशिश नहीं की तो विधेयक पास हो जाने से बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा कम से कम ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। तो जहाँ प्रशासन की दृष्टि से कड़ाई की जरूरत है वहाँ आम तौर पर माहौल अच्छा बने लोगों के अन्दर सद्भावना निर्माण हो इसके लिए पहल कर के विरोध पक्ष के लोगों को आम नागरिक जो समाज में प्रमुख नागरिक हैं उनको साथ में लेकर जहाँ भी आवश्यकता पड़े वहाँ जा कर समस्या के समाधान की दृष्टि से परस्पर विचार-विमर्श के द्वारा आप जितना अधिक से अधिक कर सकते हैं उस हिसाब से करिये। यह भी प्रक्रिया अपनाइये और साथ ही साथ प्रशासन की दृष्टि से जितनी कड़ाई से वह करिये। आपके पास कानूनी हथियारों की कमी है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ इसलिए डिस्टर्ब एरिया घोषित करने का मैं समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि कानूनी हक आपके अधिकार में ज्यादा है उसका उपयोग कर के सारी व्यवस्था आप कर सकते हैं। इसलिए इन कुछ मुद्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ। अभी हमारे सुलतान सिंह जी ने हमारी पार्टी के अध्यक्ष का नाम लिया। इसलिए मैं उसके सम्बन्ध में

कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने यह कहा कि विदेशी हाथ नहीं हैं और इन्दिरा जी ने विदेशी हाथ की बात की तो वाजपेयी जी ने कहा कि विदेशी हाथ कहाँ हैं और यदि विदेशी हाथ है तो उसको साफ करें कि किस का हाथ है और कौन से तत्व काम कर रहे हैं और सरकार वहाँ पर क्या कर रही है? अगर सोमा से घुस कर कोई विदेशी यहाँ आ रहे हैं और आपके प्रदेश में आ कर उपद्रव कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप उसको पकड़ क्यों नहीं रहे हैं? आप उसको आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं और जब आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे तो आप यह कैसे बोल रहे हैं कि अमुक स्थान पर विदेशी तत्व हमारे देश में अव्यवस्था निर्माण करना चाहते हैं, एंटो सोशल एलीमेंट इकट्ठा हो रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। उनको आप पकड़ नहीं रहे हैं। उन को आप कह रहे हैं विदेशी हाथ है, यदि ऐसा है तो आप इसको लोगों के सामने रखिये, देश की जनता के सामने प्रस्तुत करिये यह विदेशी है या देश से सम्बन्धित है तब शायद आप वहाँ की स्थिति को नियंत्रित कर सकने में सक्षम हो सकेंगे। देश को आप गुमराह न करिये। इसलिए कोई विरोधी दल का नेता बोलता है कि इसमें अमुक चीज है तो वह लोगों के सामने लाएँ और वास्तविक को ध्यान में रख कर के उसका समाधान कैसे हो सकता है इस अच्छी नीयत के साथ में बैठ कर उसका हल निकालने की दृष्टि से प्रयत्नशील होइये। यह हमारा गृह मंत्री जो मे निवेदन है कि वे इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से पहल करें सब को साथ ले कर के विचार विमर्श के माध्यम से और प्रशासनिक कड़ाई करके दोनों जरिये से पंजाब की समस्या के समाधान करने की दिशा में पहल करें।

इतनी ही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा० खट्ट प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) :
आदरणीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ जो आपने मुझ को पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र अध्यादेश, चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र अध्यादेश और सशस्त्र बल (पंजाब और चण्डीगढ़) विशेष शक्तियाँ अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी सांविधिक संकल्प एवं पंजाब विक्षुब्ध क्षेत्र विधेयक, चण्डीगढ़ विक्षुब्ध क्षेत्र विधेयक और सशस्त्र बल (पंजाब तथा चण्डीगढ़) विशेष शक्तियाँ विधेयक जो अत्यंत संवेदनशील हैं पर अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। मैं माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत विधेयकों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ है। श्रीमन्, मैंने अपने पूर्ववक्ता का तनावपूर्ण, उत्तेजनापूर्ण, आवेशपूर्ण, भाषण को सुना। मैं प्रत्युत्तर शैली को न अपना कर के केवल अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहूंगा।

मान्यवर, पंजाब में कानून और व्यवस्था उप्रवादी, आतंकवादी तथा पृथक्-तावादी एवं असामाजिक तत्वों की अनियमित गतिविधियों एवं कार्यवाहियों के कारण अत्यंत दूषित हो गई है। इन तत्वों तथा शक्तियों के कारण पंजाब तथा चण्डीगढ़ में निरंतर हिंसा हो रही है। सम्पूर्ण क्षेत्र में तनाव का वातावरण व्याप्त है। अपराधियों की संख्या में तथा स्वरूप में असाधारण रूप से वृद्धि हो रही है।

बहनों को मांग का सिद्धर लुप्त हो रहा है, माताओं की गोद रिक्त हो रही है। मानव जीवन भयंस्त तथा

[का. १६ अताप सह]

असुरक्षित हो गया है। हर ओर मानवता सिसक रही है तथा कराह रही है दूसरों ओर हिंसा अट्टाहास कर रही हैं, क्रूरता तथा बर्बरता का तांडव नृत्य हो रहा है।

राष्ट्र की अखंडता, एकता तथा प्रभुसत्ता को गम्भीर भय उत्पन्न हो गया है।

श्रीमन्, किसी भी सरकार का यह नैतिक तथा संवैधानिक कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि राष्ट्र की अखंडता तथा प्रभुसत्ता को सुरक्षा रखे, राष्ट्र में भावनात्मक एकता का वातावरण स्थापित रखे, राष्ट्र में कानून एवम् व्यवस्था का पालन हो, राष्ट्र में आंतरिक सुरक्षा की भावना पल्लवित तथा पुष्पित होती रहे, जिससे राष्ट्र प्रगति एवम् उन्नति के पथ पर निरन्तर अग्रसर होता रहे। साथ ही एक आत्म-निर्भरता सम्पन्न एवम् आत्म-विश्वासी तथा शक्तिशाली राष्ट्र बन सके।

भारत की महान प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील हैं। मैं उन्हें हृदय के धरालत से कोटि-कोटि बधाई देता हूँ। आदरणीया श्रीमती इन्दिरा गांधी जो को पंजाब के संबंध में गहरी विनता है। अभी तक उस दिशा में उनके द्वारा उठाये गये कदम इस बात के ज्वलंत उदाहरण हैं कि वह समस्या का तत्काल निराकरण करना चाहती हैं। उनके मन में पंजाब की जनता की भावनाएं, आकांक्षाएं तथा आवश्यकता का पूरा आदर है। उन्होंने सदा ही इस बात का प्रयास किया है कि राष्ट्र के हित को दृष्टि में रखते हुए समस्या का निराकरण हो।

हमारी सरकार ने सदैव ही बातचीत के द्वारा समस्या के निराकरण का प्रयास किया है। सरकार की इस उदारता, विशालता तथा महानता की नीति को असमर्थता एवं राजनीति की संज्ञा दी गई है। परन्तु सरकार ने सदा ही महात्मा गांधी तथा पं० नेहरू द्वारा प्रदर्शित मार्ग को अपनाया है, उसकी मंजूरता करता हूँ।

श्रीमन् मैं विपक्षी दलों के सम्मानित नेताओं से भी प्रार्थना करूंगा कि वह इस समस्या को राजनीति के दृष्टिकोण से न देख कर एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेने की कोशिश करें। सरकार पर दोषारोपण से समस्या का निराकरण नहीं हो सकता है। इससे हिंसा तथा पृथक्तावादी शक्तियों को भ्रम हो सकता है कि राष्ट्र के प्रतिपक्ष के कुछ नेताओं तथा दलों की उनके साथ सहानुभूति है। यद्यपि मैं आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं होगा, फिर भी वातावरण प्रतिकूल हो सकता है। इतना ही नहीं, विदेशों के सामने भी वास्तविक स्थिति नहीं आ पाती है। यह हमारी अखंडता के हित में नहीं है।

मैं अपील करता हूँ कि आप लोग समस्या के निराकरण में सरकार को सहयोग दें। राष्ट्र की महान जनता सभी दलों की भूमिका को देख रही है।

श्रीमन्, माननीय सदन इस बात से सहमत होगा कि भारत एक विशाल तथा महान देश है जिसमें नाना प्रकार की जातियाँ, सम्प्रदाय तथा भाषा के लोग हैं। किसी भी जाति, सम्प्रदाय तथा भाषा के लोग राष्ट्र की अखंडता तथा एकता को कभी समाप्त नहीं करना चाहेंगे। प्रत्येक राष्ट्र में कुछ असामाजिक एवं राष्ट्रद्रोही तत्व तथा शक्तियाँ होती हैं जो जाति, धर्म तथा भाषा के नाम

पर संघर्ष कराती हैं, हिंसा तथा आतंक का वातावरण उत्पन्न करना चाहती हैं। इस कार्य के हेतु राष्ट्र का हित न चाहने वाले राष्ट्रों से उन्हें हर प्रकार की सहायता प्राप्त होती है। इन पृथक्तावादी तत्वों का मुखौटा जाति, धर्म भाषा होता है, पीछे पृथक्तावादी शक्तियाँ कार्य करती हैं।

श्रीमन् पंजाब ने राष्ट्र के स्वतंत्रता आन्दोलन में प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया है। स्वतंत्रता की बलिबेदी जलियाँ-वाला बाग पर पंजाब को ही नहीं सम्पूर्ण राष्ट्र को गर्व है। स्वतंत्रता के पश्चात जब भी राष्ट्र पर आक्रमण हुआ है, पंजाब ने सदा ही त्याग किया है, बलिदान दिया है। राष्ट्र की उन्नति, विकास एवं स्मृद्धि में पंजाब का योगदान सराहनीय रहा है।

मैं अपने पंजाब के भाइयों से अपील करूँगा कि वह अपने बीच कार्य पर रहे देशद्रोही तत्वों तथा शक्तियों को पहचानें, सरकार को सहयोग दें तथा पंजाब में प्रेम एवं स्नेह, सद्भावना, मैत्री की भावना उत्पन्न करने में सहायता करें।

श्रीमन् उग्रवादी, पृथक्तावादी तत्व पंजाब एवं चंडीगढ़ में अयिमित तथा हिंसक गतिविधियों में कार्यरत हैं। हत्याएं हो रही हैं, तोड़फोड़ की कार्यवाही चल रही है, असुरक्षा की भावना गम्भीर होती जा रही है, आगजनी, लूट, डकैतियाँ बढ़ रही हैं, जनता की सुरक्षा हेतु प्रभावी उपाय आवश्यक हो गये हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस और सेना के प्रभावी ढंग से निपटने के लिए ये विधेयक लाये गये हैं। इन विधेयकों का उद्देश्य सीमित है और वह है अपराधियों को पकड़ना तथा अपराध को

रोकना जो आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य हो गया है।

अन्त में मैं गृह मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पंजाब तथा चंडीगढ़ में उत्पन्न स्थिति को दृष्टि में रखते हुए माननीय सदन में इन विधेयकों को प्रस्तुत किया है। मैं समझता हूँ कि उन्होंने यह विधेयक प्रस्तुत करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं किया है, दुखी भाव से ही उन्होंने विधेयकों को प्रस्तुत किया है क्योंकि उन्हें इस के लिए विवश होना पड़ा है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इन विधेयकों को प्रस्तुत करने के अतिरिक्त सरकार के सामने कोई विकल्प नहीं था जिस से वर्तमान परिस्थितियों पर नियंत्रण पा सकें, जिस से शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो सके और राष्ट्र की अखंडता बनी रहे। अन्त में आप की अनुमति से हिन्दी की एक ख़ाई पढ़ कर अपनी बात को समाप्त करूँगा।

“बात ही बात में विश्वास बढ़ल जाता है

रात ही रात में इतिहास बदल जाता है

तू मुसीबत से न घबरा अरे इन्सां घरा की कौन कहे आकाश बदल जाता है।”

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत विधेयकों का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सत्यपाल मलिक (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, कल की घटनाओं के बाद आज यहाँ बहस में जो संजीवनी होती वह गैरहाजिर हो गयी और सरकारी पक्ष की गलती से हो गयी। वह ऐसा

[श्री सत्यपाल मलिक]

मामला था कि जब इस पर वहस होती तो छोटी छोटी बातों से उठ कर होनी चाहिए थी। मैं खुद यह सोच रहा था कि जो पाटियों के अलग-अलग दृष्टिकोण हैं उन से ऊपर उठ कर कुछ बात कहूँ, लेकिन सेठी के पास कई सुलतान सिंह जी हैं और वे सारी बात को कड़वा कर देते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि उस स्तर पर बात को न ले जाऊँ।

केन्द्र सरकार ने जो यह कदम उठाये हैं उन से हमारी असहमति नहीं है। स्थिति से निबटने के लिए यह जरूरी था। किन्तु मेरा कहना सिर्फ यह है कि यह कदम आप ने कुछ सोच-समझ कर इस मसले को हल करने के लिए नहीं उठाये, बल्कि घटना विशेष से अज्ञानक चौंक कर उठा दिये और एक तरह से उनीचे और ऐसे आदमी द्वारा उठाये गये हैं जो नींद में चलता जा रहा था, एक घटना ने उसे चौंकाया और उस ने एक खास हरकत कर दी अगर आप ने सोच-समझ कर कदम उठाया है तो उस के नतीजे निकलेंगे, लेकिन मेरा विश्वास है कि घटना से चौंक कर आप ने यह कदम उठा दिया।

स्थिति में इस के बाद सुधार हुआ हो ऐसा आप मानते होंगे, हम नहीं मानते। पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री का बयान छपा है। उन्होंने एक इन्टरव्यू में कहा है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। घटनाओं की बावत उन्होंने कहा है कि जो पेटी, मामूली क्रिमिनल्स हैं उन की गिरफ्तारियां हुई हैं, जो बड़े हैं, प्रोक्लैम्ड आफ़ेन्डर्स हैं उन की गिरफ्तारियां में अभी कोई कामयाबी नहीं

मिली। उन का खुद का ऐसा मानना है कि जो नतीजे हम सोचते थे वह नहीं निकले। यह सेठी जो कि जिम्मेदारी है कि वह दरबारा सिंह के बयान को दृष्टिगत रख कर कामयाब होने की कोशिश करें।

मैं सुलतान सिंह जी के इस कथन से असहमत हूँ कि पंजाब के मामले में कोई पोलिटिकल सोल्यूशन नहीं हो सकता आज की बहस में सब से खतरनाक बात कही गयी है कि किसी पोलिटिकल सोल्यूशन की जरूरत नहीं है। श्रीमान, लोकतंत्र में सिर्फ पोलिटिकल सोल्यूशन होता है! लोकतंत्र में फौज के जरिए, पुलिस के जरिए मसले हल नहीं होते। लोकतंत्र ही नहीं, जिन तानाशाहियों ने कोशिश की है पुलिस, टैंक और वाइर से मसले हल करें उन के नतीजें आप देख सकते हैं। ईरान के शाह के पास एशिया और मध्य एशिया की सब से ताकतवर फौज थी, लेकिन पोलिटिकल सोल्यूशन नहीं करना चाहता था, उस का जो हुआ वह आप के सामने है। इस के बाद खोमैनी और तमाम दुनिया के नतीजे देख लीजिए। मैं आप को चेतावनी देना चाहता हूँ कि पंजाब नागालैंड नहीं है, नागालैंड दिल्ली से बहुत दूर है, नागालैंड की सारी बातें दिल्ली तक नहीं पहुंचती? पंजाब आसाम भी नहीं है—जब मैं यह कहता हूँ तो मेरा मतलब यह नहीं है कि आप अकाली दल की सारी बातें मान लीजिये, आप राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर, सरकार के तौर पर कहिये कि हम फलां-फलां बातें मानते हैं, इस के आगे हम नहीं जायेंगे। सारा देश आप के साथ खड़ा हो जायेगा। जो वाजिब बातें हैं उन को मानिये और और वाजिब बातों को आइडेंटिफाई कीजिए।

कहना कि इस का पोलिटिकल सोल्यूशन नहीं हो सकता पंजाब के मामले का, यह एक खतरनाक स्टेटमेंट है और मैं चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जो इस में तरमीम लाये और बतायें कि उन को पार्टी को इस मामले में क्या नीति है। आप की पार्टी डाइवर्ट कर रही है। पानी के मामले में हरियाणा के साथ ज्यादाती हुई, लेकिन जब आप हरियाणा के मुख्य मंत्री को डांटते हैं, धमका देते हैं तो वह चुप हो जाता है। जब आप उस को उकसा देते हैं तो वह बोलने लगता है और दंगाइयों की भाषा बोलता है। किसी सुबे के मुख्य मंत्री की क्या यह भाषा होनी चाहिए कि एक विस्फोट सौ जाट के बराबर होता है। ऐसे बयानात से सांप्रदायिकता बढ़ती है। मुझे इस बात का अफसोस है। कुश्कर्त में आप का सम्मेलन हो रहा था। डिल्लों साहब जो स्पीकर रहे हैं लोक सभा के वे वहाँ पंजाब का दृष्टिकोण रख रहे थे। मुझे पंजाब के दृष्टिकोण रखते हुए पूरी सहानुभूति नहीं है और हरियाणा के दृष्टिकोण से भी पूरी सहानुभूति नहीं है। मैं तो वाजिब बात के पक्ष में हूँ, लेकिन पंजाब का दृष्टिकोण रखते हुए आप की पार्टी के नेता और आप की पार्टी के लोग ही उन को बोलने नहीं देते। आप अपनी बात की सफाई करते हैं तो कहते हैं कि प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि देश को खतरा है। हमारे नेता भी यह बात मानते हैं। वे कहते हैं कि देश को खतरा है और विदेशी ताकतें हिन्दुस्तान को तोड़ने में दिलचस्पी रखती हैं। हम यह भी मानते हैं कि आज पंजाब में कुछ ऐसे लोग हैं जो उन ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। लेकिन आप का गवर्नर तत्काल कहता है कि इस में विदेशी ताकतों का हाथ नहीं है। तो यह जो डिस्क्रिप्सी है, यह जो कन्फ्यू-

जन है इस को आप दूर करिए। अभी मैं पढ़ रहा था, हमारे सुब्रमनियम स्वामी साहब खाना खाते हैं पाकिस्तान के राजाध्याक्ष के साथ उस में बातचीत के दौरान जिया साहब कहते हैं कि मैं तो साबित करने के लिए तैयार हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हो रही गड़-बड़ियों में हिन्दुस्तान का कहीं-कहीं हाथ है, लेकिन हिन्दुस्तान यह साबित करने के लिये तैयार नहीं है। आप के राजदूत वहाँ बैठे हैं ...

श्री हरि सिंह नलवा (हरियाणा) :
मेरा एक प्वाइंट आफ ऑर्डर है। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि आप तो पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। आप ही कह रहे हैं कि सरकार पंजाब का पोलिटिकल सोल्यूशन नहीं निकालना चाहती। मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूँ कि इस मामले में लोक दल की क्या नीति है, इस पोलिटिकल सोल्यूशन निकालने के बारे में, जो आप कहते हैं ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): There is no point of order. But you have made your point.

श्री सत्यपाल मलिक : मैं उन का जवाब दूंगा। राष्ट्रपति जिया यह इल्जाम लगाते हैं और हमारा राजदूत वहाँ बैठा हुआ है। जितना इंटरव्यू मैं मैंने पढ़ा है, हमारे राजदूत को उस का वहाँ जवाब देना चाहिए, आप की पार्टी की तरफ से उस का जवाब जाना चाहिए और आपके प्रधान मंत्री जी को नाराज होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे देश को खतरा है, लेकिन आप आइडेंटिफाई करिये कि वह कौन-कौन से एलिमेंट हैं कि जो खतरे का बाइस हैं और आप उन के खिलाफ कार्यवाही करिये। अभी वहस हो गयी कि यह आंदोलन किस की पैदाइश है। मैं इस वहस में नहीं पड़न

[श्री सत्यपाल मलिक]

चाहता। बड़े-बड़े नाम लिये जायेंगे आप की तरफ से, लेकिन मैं उस बहस में नहीं पड़ता, लेकिन साथ ही एक निवेदन करना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के जज की एक इक्वायरी हो जाए इस बात के लिये कि यह पंजाब का आंदोलन किस की पैदाइश है और यह उग्रवादी किस की आलाद है। हम उस इक्वायरी के लिए तैयार हैं, इस के लिये सारा अपोजीशन तैयार होगा। एक फैसला पंजाब और हरियाणा के सिलसिले में हो गया था। प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने फैसला कर दिया था। कमीशन का एक फैसला आ गया था और उस के बाद दोनों सूरों में आप की सरकारें थीं। हरियाणा में आप की सरकार थी और पंजाब में भी आप की सरकार थी। इमरजेंसी लगी हुई थी। सारे देश में आप ने बुलडोजर चलवा दिये। बारातों को उतार कर आप ने उन लोगों को जबरजस्ती नसबंदी करवा दी लेकिन आप ने पंजाब का और हरियाणा का फैसला नहीं करवाया, न उस की सीमा का फैसला करवाया और इस का जिम्मेदार अब हम को ठहराते हो कि अपोजीशन पार्टी इस के लिए जिम्मेदार है। मैं मुलतान सिंह जी को बात में ज्यादा नहीं फंसता इतना कि उन का जवाब देते समय मैं अपनी माकूल बात कहने से भी रह जाऊँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति है देश के अंदर वह बहुत खराब है और उस में भी पंजाब का मामला बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन आसाम है, पंजाब है, इस सब के साथ आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि सारे देश में इस वक्त जो फिरके हैं अलग-अलग उन का लीडरशिप स्थानीय स्तर पर समझदार लोगों के हाथ से निकल गयी है। पहले इस

देश में, जलूस जलसे होते थे, मोहरंम आदि के त्यौहार होते थे दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होता था और शान्ति पूर्ण तरीके से सब काम हो जाता था। उस वक्त यह देखा गया है कि उन जलूसों और जलसों का नेतृत्व कुछ समझदार लोगों के हाथ में होता था आजादी की लड़ाई के दौरान एक ऐसी लीडरशिप निकली थी कि उस के चलते सब कुछ शांति से हो जाता था। लेकिन आप नोट कर रहे होंगे कि पिछले 6 महीनों से या पिछले साल भर से स्थानीय नेतृत्व से वह समझदार लोग इरिलिजेंट हो गये हैं। जो आज चारों फिरके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन चाहे वह हिन्दू हों या मुस्लिमान, सिक्ख हों या ईसाई, सब का नेतृत्व स्थानीय स्तर पर कुछ नामाकूल और एंटी सोशल लोगों के हाथ में चला गया है। कोई दिन नहीं गुजरता जब कि दंगे फसाद न होते हों। आज जो मनोवृत्ति बन रही है, अगर देश के स्तर पर ऐसी मनोवृत्ति बन जाए और लीडरशिप एक्सट्रीमिस्ट्स के हाथ में चली जाएगी और सिक्खों में भिडरावाला लीडर बनेगा तो हिन्दुओं में भी कोई नामाकूल आदमी लीडर बन जाएगा और देश तहस-नहस हो जाएगा। आप कहेंगे कि आप के हाथ में ताकत है, आप की सरकार कायम रह सकती है, मुल्क कायम रह सकता है, लेकिन वह सारे बैल्यूज वे सारा चीजें जो आजादी की लड़ाई से पैदा हुई थीं, वह खत्म हो जाएंगी और लोकतंत्रात्मक किस्म की लीडरशिप खत्म हो जाएगी।

इसलिए मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि गांधी जी की हत्या किसी के कहने से गोडसे ने की, किन्तु देश में

एक माहौल ही ऐसा पैदा हो जाता है जिसमें ऐसा होता है। मैं नहीं कहना कि कौन अकाली आन्दोलन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन एक माहौल बन गया है जिसके लिए जिम्मेदार लोगों को आप आईडेंटिफाई करें कि कौन लीडरशिप है जिसको बजह से यह हो रहा है। दूसरे तूबों में भी कम्यूनल लीडरशिप के खिलाफ आप लड़ाई कीजिए, उनको आईडेंटिफाई कीजिए। लेकिन अपोजिशन को इसका दोष मत दीजिए। मैं कहना चाहता हूँ कि देश को बचाने में अपोजिशन न पीछे था और न पीछे आज है। ऐसे संमीर मसले में मैं शेर कहने का आदो नहीं हूँ, लेकिन इस माहौल में मैं दुश्मंत कुमार की दो लाइनें कहना चाहता हूँ :—

“उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें,
चाकू की पसलियों की गुंजारिश तो देखिए।”

आप मदद भी चाहते हैं और हमको भारना भी चाहते हैं, ये दोनों बातें चल नहीं सकती।

श्री चाँद राम (हरियाणा) : मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके पास कोई पोलिटिकल सोल्यूशन है? लोक दल के पास कोई पोलिटिकल सोल्यूशन है तो इस हाउस में रखें।

श्री राम भगत पासवान (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो पंजाब और चंडीगढ़ डिस्ट्रिक्ट एरियाज बिल लाया गया है उसके समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, इस बिल का उद्देश्य है। देश को एकता और अखंडता को सुरक्षा के लिए माननीय मंत्री जी यह बिल लाए

हैं। श्रीमन्, भारत के प्रजातन्त्र में विरोधी पार्टियों का जो रोल रहा है वह बहुत ही दुखदायी रहा है। इनके इतिहास को देख लें तो प्रजातन्त्र की सफलता के लिए देश की सुरक्षा के लिए देश के जो कल्याण के मुद्दे हैं, उनका इन्होंने समर्थन कमो नहीं किया बल्कि तहेदिल से विरोध किया। आखिर में भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता का विश्वास प्राप्त करके सदन में आये हैं। तो इनको इस तरीके से जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज यह महसूस हो रहा है इन लोगों ने भी कहा है कि पंजाब को जो स्थिति आज हो गई है पंजाब में जो उपद्रवादी आतंक मचा रहे हैं; जो हिंसा पर उतर गये हैं, उनको हिंसा पंजाब तक ही सीमित नहीं बल्कि देश के दूसरे भागों में भी फैल गई है, जिससे हमारे देश को अखंडता और एकता पर बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में इस बिल का लाना बहुत ही आवश्यक था। श्रीमो शिवचन्द्र झा जी ने, मैं उनकी बहुत कद्र करता हूँ, इस बिल की तुलना मार्शल ला से की। इसकी तुलना पिछले अंग्रेजी सरकार के जमाने के विधेयकों से की। उन्हें क्या यह भी पता नहीं है कि ये आतंकवादी लोग जो धर्म को आड़ में आन्दोलन कर रहे हैं, ये राजनीतिक चाल है। यह हमारा बार्डर स्टेट है, जब जब देश पर खतरा हुआ है तो बार्डर से शुरू हुआ है और इन आतंकवादियों को बढ़ावा कहाँ से मिल रहा है। विदेशी लोगों से और पाकिस्तान से भी इनको बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए इनको दवाने के लिए यह बिल लाना जरूरी था। इसका कंसेन्सस आप यू.पी. की डकैती और अंग्रेजी सरकार के बिलों से नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि इनकी हिंसा यहां

[श्री राम भगत पासवान]

तक बढ़ गई है कि हजारों की जानें जा रही हैं राष्ट्रीय संपत्ति नष्ट हो रही है, कितने अधिकारों भारे गये हैं, धार्मिक आड़ में हिंसा हो रही है। धर्म का कार्य हिंसा करना नहीं है। धर्म तो रक्षा कर सकता है। लेकिन हिंसा पर जो लोग उतर गये हैं उनका मुख्य उद्देश्य खालिस्तान स्टेट कायम करना है। यह भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्रीयता के नाम पर जो भ्रमल राज्य कायम करना चाहते हैं या हमारी अखंडता पर डायरेक्ट अटेक करना चाहते हैं, जितनी जल्दी हो सके सरकार को उनको कुचल देना चाहिए। जो हमारी अखंडता पर डायरेक्ट या इन्डायरेक्ट अटेक करना चाहते हैं उनको कुचलने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इसलिए विरोधी पार्टियों को सरकार को धन्यवाद देना चाहिए। जैसा सुलतान सिंह जी ने कहा राष्ट्र के हित के लिये, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यह विधेयक लाया गया है। उसको हमको, आपको तारीफ करनी चाहिए। आप लोगों की भावत बन गई है कि सरकार जो भी अन्धका कान करेगी उसका विरोध करना ही है। आपको कन्फ्रेशन टकराव की नीति है। इस नीति को आपको छोड़ देना चाहिए और देश के हित में जो कानून बनता है उसका तहेदिल से समर्थन करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) :
आप अब समाप्त करिये।

श्री राम भगत पासवान : एक दो मिनट और लूंगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, वह जानकारी मिली है जैसा पेपरों में देखने को मिलता है कि कुछ घातकवादी लोग विदेश से काश्मीर के रास्ते से आ रहे हैं और निहंग लोग जो हैं उभमें आकर

मिल जाते हैं। ये लोग यहाँ पर घातक फला रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अगर ऐसे लोग हैं तो वह उनकी जानकारी प्राप्त करें और यह देखें कि उनका घर कहां है, वे लोग कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। उनकी जानकारी प्राप्त करके उनको घाउंटीकाड़े इसू किये जायें। इसके साथ ही यह भी जानकारी मालूम करें, यह भी पता चला है कि काश्मीर में राष्ट्र विद्रोही लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। जिस प्रकार से आपने पंजाब में प्रेजीडेंट रूल जारी किया है उसी तरह से काश्मीर में भी प्रेजीडेंट रूल कायम कर दिया जाए। मैं आग्रह करूंगा कि सरकार को यदि काश्मीर में ऐसा हो रहा है तो उसको भी भंग कर देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री दिनेश गोस्वामी) :
अब समाप्त करिये।

श्री राम भगत पासवान : इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारा देश प्रगति कर रहा है। लेकिन हमारे कुछ पड़ोसी देशों को यह अन्धरा है। वे लोग किसी न किसी तरीके से डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं और अशांति पैदा करना चाहते हैं। इसलिए यह जो बिल है यह उपद्रवादियों के लिए, प्रतिक्रियावादियों के लिए, घातकों वादियों को कुचलने के लिए लाया गया है। इसलिए मैं इस बिल का तहेदिल से समर्थन करता हूँ और माननीय गृह मंत्री जी को इस के लिए धन्यवाद देता हूँ।

SHRI M. KALYANASUNDARAM
(Tamil Nadu): Sir, I stand to oppose that three Bills as they are very dangerous and will not help the Government to restore normalcy in Punjab and to win over the people of Punjab in the task ahead. That does not mean that I under-estimate the danger to the security of our country. Can the powers that are sought to be taken through these three Bills, particularly the powers to be given to the armed forces, be enforced without the risk of being called as martial law? The powers resemble that

of martial law. Do you have a General who will behave like that?

6 P.M.

Will that not percolate among the army? Will it not undermine the secularism and patriotism of the armed forces? These Bills are not conducive to preserve our democratic system. It will be all right for a military dictatorship like what they have in Pakistan.

AN HON. MEMBERS: Zia-ul-Haq.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Hvcn he is not allowed to rule in peace. It is a strange irony that we have to discuss these Bills at a time when the (ommonwealth Heads of Government are meeting in our capital. What will they think? Punjab had a glorious tradition, more than the Golden Temple, that is Tallianwallabagh, where Michael O'Dwyer massacred people. The sacrifice made by those people is written in golden letters and that place is looked upon as a shrine of our national struggle for freedom. Those were the days. And the names of General Dwyer, the then Governor of Punjab and Michael O'Dwyer, who ordered the massacre, have gone into history as the *most* brutal people. No doubt the activities of the extremists are very brutal. They have to be dealt with severely. I won't hesitate in that, but how to do it?

Who are responsible for allowing the situation to drift like this? Whenever may be their differences with the ruling party, no party should hold a brief for the external forces which are threatening on our borders with the most sophisticated of weapons. But, at the same time, the ruling party should not imagine that they alone are capable of finding a solution to this problem. Every day it is becoming more and more serious. Today it is more than 45 days since President's rule was proclaimed there. What is the improvement they have shown? Everyday there is deterioration. The recent killings were ilone in such a manneT as to provoke communal tension throughout the coimtrv. It is clear that there is a purpose behind fomenting these killings. How to tacfcle these problems?

I would equally blame the rutins Congress at the Centre and in the State who are there for the past two and a half years. The leadership of the Akali Dal also should bear the responsibility for this situation. They are blaming the opposition parties. I ask them, what was the attitude of the Congress in the State inside when such a serious threat was there, just in front of their nose, on the borders? Were they not quarrelling, were they not vying with each other for appeasing the extremists? And, at least a section of the Congress was trying to appease these extremists, underestimating the danger. There are other forces in this country who would even welcome it and who are unhappy that our Government is pursuing a policy of non-alignment, world peace and disarmament. But our country is still sticking to the Simla Pact though Zia-ul-Haq has thrown it to the winds. So, that is a danger, no doubt. But, will these Bills give you the strength to act and the will for our administration to act? And to use them? **WhaJ** will happen if more and more people are killed? It will be counter-productive. An ordinary Jamadar or Havildar can shoot anybody. He can go anywhere and seize any thing. While I am prepare to declare unhesitatingly the Golden Temple as a sacred place—we are prepared to associate ourselves with the Sikhs to treat it as sacred—however sacred it may be, can it become a centre of parallel government, can it become an abode of harbouring anti-national terrorists who will ultimately become treacherous to our country? Is this the purpose for which the Golden Temple was built and worshipped? At the same time, you may ask whether you should be given the powers to enter the Golden Temple to apprehend the culprits. I would say, you should not. That wont help us. to solve the problem. My party has been warning the leaders of the Akali Party that they should not harbour these extremists and they should dissociate themselves from the extremists. I think—that slowly they are realising that. Today's statement of Longowal should not tre treated lightly. He has condemned in a forthright manner the killings by these people and has also appealed to the Sikhs to come to the rescue of the people. It V a welcome step that he has taken. **But**

[Shri M. Kaiyanasundaram]

that is not enough. The Akali leadership should categorically tell the nation, because of the worsening situation; that they are stopping all their agitations; they must declare a moratorium to all their *morchas* and all those things. Then alone will the extremists be isolated. (*Time bell rings*) I do not want to take more time of the House. I would ask: What happened to the tripartite conference, including the Opposition and the Akali Dal? Call that conference as quickly as possible. The Opposition parties will be able to help you to reach a political solution. If any section of Punjab refuses to accept that, then alone will they get isolated, while filling confidence in our people. See how it was responded to, how the people of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh have come out, although the call was not given by all secular forces. If all the secular forces in the country had joined together and roused the nation against this danger, I would see which force in Punjab or elsewhere went against that force. That is the force you should really have, not the force of the Armed Forces. The Armed Forces can have the powers[^] but they cannot implement them. The force of the people alone will succeed. Congress (I) should not hesitate about it. Even now the Election Commission has recognised you as the Indian National Congress. The people also look forward to your party as the inheritor of the Indian National Congress. It had a common platform during the days of the freedom struggle. Again we are in a situation similar to that. Should you not lead the nation and try to bring all the secular forces together so that communalism can be kept under check? The danger is that communalism is likely to spread. On the one side the Vishwa Parishad is carrying on Yatra and on the other, these people are killing innocent people. It can spread the virus of communalism. Such is the danger. Don't imagine that Congress (I) alone will be able to find a solution. That is why I would still urge upon the Government to call a conference. Take that correct step. I do not want to go into details of the demands, how they can be solved. That can be discussed later.

SHRI SANTOSH KUMAR SAHU (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I stand with a heavy heart to support this Bill. I am sure the hon. Home Minister would have come with much thought over this Bill because in any normal situation he would have never come before this House with the Bill.

" Sir I am not very much conversant with the Punjab issue. What has come in the newspapers, if we go through, the law and order situation has deteriorated very much. Yesterday I have seen "*The Times of India*" where it has highlighted pointed out that the extremists were still at large. That was the headline. It said that a bus was hijacked. The persons were offloaded. One Mr. Ajit Singh saved a person whose name was Harbans Lal, a shop-keeper of Makoh. He pleaded with the extremists that he was taking him with him. So who is responsible? That is a big question. These things are happening. And this is happening from the murder of Lala Jagat Narain. Today Mr. Longowal who is the leader of the *Morcha* and Akali Dal has condemned this. Now these things have come out in the Press. But I will only quote the editorial of the "*The Indian Express*" today. It has said like this:

"The Akali Dal denounced the DM-wan killings and will doubtless dissociate itself from the latest massacre too. It is quite possible that Naxalites, Dal Khalsa secessionist and various other elements are staging the murders to stir up communal trouble to serve their own purposes. But Akali pretensions of innocence do not carry credibility with an increasing number of people."

The editorial says this. It is not my intention. It is "*The Indian Express*" which has said this in the editorial to-

**9'

a

"Ranjit Singh, wanted for the murder of the Nirankari Baba, has been seen recently in the Golden Temple. The Secretary of the Dal Khalsa is safely easconsed there. Instead of handling over wanted men, whose, names have been supplied, the Akali leadership blandly denies their presence in the Golden Temple."

God knows the truth.

Now, the question is, the Home Minister has said in the other House that he was willing to call a tripartite conference. My humble suggestion is—it has taken a very colossal and serious proportion—let us not keep all the eggs in one basket. The first thing is that the religious question should be decided separately. On the political questions like the boundary dispute, the water dispute, there must be a conference of the concerned parties. If we mingle the political question with the religious questions, it will never end, and if wiH never bring happiness to Punjab or solve the national problem. The political issues are created for political osporunities which create problems and vitiate ihe atmosphere.

Now the question is like this. Yesterday I was reading that the Guru Nanak's Birth Day was celebrated in Amritsar, in which every community participated. We also know that Guru Nanak in history was a great religious saint. He not only preached religion in Punjab, but he even went to Lord Jagannath at Puri because he was a liberal leader also and he preached tolerance of religion. Let us learn from the history of India. Whenever there was religious tolerance it was a golden age. Ashoka who tolerated every religion preached non-violence, was a great apostle in ihe whole world, and India had a golden age. Harsha Vardhana preached religious tolerance, and there was a golden age. Even Akbar was a great emperor who preached religious tolerance, and the country pros-

pered. Let *us* learn something from the cultural history of India. This is from the ages of Vedas and Upanishads. We hav© preached it for the happiness of all mankind. *Sarve bhavantho sukihnou*. So, in any way if we go back from this, it will just create problems.

Many of the hon. Members from the other side have pleaded seriously that for the solution of these things there should be a conference. But, Sir, I appeal, this is not only a question of Congress (1). If these people are also thinking of this problem, let them all say what the solution is. If they can announce it_ probably the political will will also go with them. But let us not try to confuse and blame each other. It does not help in understanding the problem and bringing a solution. And whatever the things may be, we have to say that this culture of violence of these extremists, by which innocent people are killed, cannot be tolerated in this country, and if we mix the religious demands and the political demands, probably we are going against secularism which has been propounded in modern India in our sacred Constitution. Arid we will go back in history if we go on intermingling all these questions. My first point is that the religious question.. is has been declared by the Prime Minister, should be dealt with separately and the boundary question should be settled by discussions with the concerned parties. Is there any region where there is no boundary question? There is a boundary dispute between Maharashtra and Karnataka. And in water disputes many States are involved. When these questions are raised, the concerned States hava to settle it by discussions. It cannot be dono by violence, by force. It cannot be that one party will gain over the other. India must be taken as a whole. So I appeal through you that it is not a question of mud-slinging at each other. This is a grave situation. We do not know who the terrorists are. Mr. Mohunta has said that some people are trained in foreign countries and we are not able to catch them. But if they are coming from the same place, the local people must be knowing

I Shri Santosh Kumar Sahu J

ihcm. It should be possible for them to pinpoint the persons. I think in this Bill the people should have been given more powers. There must be a section after section 5 as section 5A that in the interest of checking violence and communal tension in Punjab, they will have the right to destroy arms dump and training camps and immediately inform the police, because everybody is condemning it. The Opposition is condemning it, the Akali Dal is condemning it. And yet how are they moving about in Punjab? If the police are politicised^ they cannot be efficient. Mr. Longowal has himself asked: if those persons were dragged out from the bus, why couldn't all the passengers cooperate and protect them? So this is the crux of the problem. So I appeal to everybody, because of the strategic reasons, to consider (he question very calmly, coolly and treat (he issues separately. Let us not mix religion with politics and let us reward the Nihang who saved the life of a Hindu and m'came the idol of the whole nation.

SHRI KHUSHWANT SINGH (Nominated): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the Home Minister to an incident which took place in Haryana which, I think, has a bearing on the situation in Punjab and from which we can draw certain conclusions. Mr. Home Minister, you are no doubt aware that between the 7th and 10th of October, there were anti-Sikh riots in Yamuna Nagar, a town which has a long history of communal harmony. You have also no doubt received the representation made by the Sikhs of Yamuna Nagar. It was presented to the President the Prime Minister yourself and the Chief Minister of Haryana. What is significant about this incident and the representation is the fact that the leader of the delegation which made it is an old, well-known freedom fighter, Baba Daaunda Singly who has been in jail many times and is currently the other leader of the Congress—I party. And people who signed this representation, all Sikhs, are also all members of the Congress—I party. Their allegation is that a meeting that took place on the 1st of October when Mr.

Virendra came from Jullundur and made an inflammatory speech which was followed by violence on the 7th. The mob which attacked the Sikhs' property and life, in which 43 people were injured, one killed and over Rs. 12 lakhs worth of property was looted or destroyed consisted of members of the Hindu Sammelan was led by a man who is the leader of the Congress-I party. With them there many other office-bearers of Congress I. Their names are listed in the representation. The leader was a retired Wing Commander of the Air Force and at present head of the Congress-I. The representation also states that the mob was armed with "Trishuls" and that there are a large number of such trishuls currently available in Yamuna Nagar. It is not my object to accuse the Congress-I. All I want to say is that this issue has now ceased to be political and has become a communal. It is Congress-I Sikh versus Congress-I Hindus or generally Hindu vs. Sikh because amongst the things destroyed were sacred books, Gutkas of the Guru Granth. This is what I feared. I expressed my fears earlier that this contagion is spreading and is going to spread further and I fear more is yet to come of the Hindu backlash. It is inevitable when crimes are committed by people who appear to be Sikhs, there will be a Hindu backlash. There is tension in Delhi. It has already exploded into violence in your own home-town, Indore. We are all very concerned about it. What we have to do is to stem this communal virus in Punjab and prevent it from spreading to the rest of India. It is on this score that I am not quite certain whether the Ordinance that you have passed is the right answer. I fear and I suspect that it may prove counter-productive and may boomerang. You have armed the police with enormous powers of search. I am told that they are combing village after village for illegal arms and suspects. This is the function of the police as they must catch culprits. But, Mr. Home Minister, is it not also obvious that in the process of so doing, since the terrorists and extremists are Sikhs, the police is bound to search only the houses of Sikhs? It stands to reason that in villages the feeling of discrimination is going to spread because police attention will be focused only on Sikhs

leaving out the Hindus. And Sikhs, at least a section of them, who already feel that they are being discriminated against, will feel even more discriminated against, and we may get into the same situation which took place during ASIAD when your foolish Chief Minister of Haryana ordered the search of every single Sikh coming to Delhi. It is Jhat kind of a situation that we should try to avoid. I don't think that this Ordinance which empowers the police, to go into homes and search—and inevitably when the police will only search Sikh homes thereby create a further cleavage between the two communities—is going to help. It must be quite obvious to you by now that the answer does not lie in guns but in goodwill. I don't see how you can create goodwill with guns, and that also with guns in the hands of the police. There will be retaliation. The only way you can create goodwill—and I repeat it for the 9th time,—is for you to re-open negotiations with the Akalis and come to a settlement; otherwise, the entire country will have to pay a very heavy price for your dithering over the situation in the Punjab. Thank you.

SHRI V. GOPOLSAMY: Mr. Vice Chairman, the situation in Punjab is so alarming and grave that the people throughout Punjab are trembling in panic and fear. I condemn in the strongest terms this dastardly attack and killing, the heinous crime of killing the passengers in buses, and so on. This is the second incident. Passengers in the trains also have been killed. So far about 160 violent incidents have taken place in which one DIG, three Inspectors, four Sub-Inspectors, six Head Constables fifteen policeman, more than 35 Nirankaris and about 15 innocent Hindus, have been killed. I share the grief of those widows who have lost their husbands, the mothers who have lost their sons. But the Akali leaders also have stated that in the name of police encounters, 150 Sikhs have lost their lives. About 1,50,000 Sikhs have courted arrest in the course of the morchas they have undertaken. Now, you have armed the Police with special powers. These draconian provisions are before the House now. These provisions, if passed, will

definitely arm the Police and the Armed Forces. But the Police force is already a spoilt force. Their image has been spoiled. I quote from the Indian Express of November 8, 1983 where, Rear Admiral Salyindra Singh (Retd.) has written as follows under the caption: Punjab; Failure of Intelligence: He says:

As an editorial in this paper said (Sept. 9), it is a grave matter when the police file an FIR against a Minister in a murder case. It is even graver when the Minister in question accuses the Chief Minister of engineering this situation as part of a political vendetta against dissidents in his party. Another comment (Oct. 26) said: Rightly or wrongly, the impression has gone round that one can commit murder and get away with it if one has the right type of contacts. The admission of the Director General of Police, Punjab, before the State Estimates Committee last March is another case in point. When questioned about the mysterious disappearance of a well-to-do lady from her house in Nabha a year earlier, he stated that the accused involved in the case were very influential and that was the biggest drawback. Thus one can get away with blue murder if one has influence. Another distinguished policeman also a member of the National Police Commission has recorded that no separate statistics have been compiled on politically motivated murders. This is the image of the Police in Punjab. The local intelligence has totally failed. Now you are arming the Police and the Armed Forces. Unless you get the prompt cooperation from the local police and intelligence, your combing operations will not succeed. You have experimented with it in Mizoram. The Police force is already spoiled force and some of the officials do not take serious interest because many have been promoted in total disregard to seniority and merit. Now, the Congress(I) Government or Party cannot blame the opposition. The opposition was always ready to cooperate with the Government on this issue. For example, they said that the river water dispute between Punjab and Haryana should be referred to a tribunal under the Inter-

SHRI SULTAN SINGH: Why not give Fazilka to Haryana?

Sir, the Sikhs have a very rich heritage and they have a history of valour and sacrifice. Mr. Kaiyanasundaram was referring the Jallianwalabagh massacre. When General Dyer gave the orders, guns roared and hundreds were killed and, Punjab gave birth to Udham Singh who avenged these killings, this massacre, later. It gave birth to Bhagat Singh. It is the very same Punjab which gave birth to Rajguru and it is the very same Punjab

which gave birth to Sukhdev and it is the same Punjab which has given birth to other revolutionaries. The leaders of the Akali movement have condemned the killings. Not only that. They have participated in the hartal there and they have also appealed to the people. They are ready to take part in the joint peace marches and peace meetings. So, I would request the Government to take this gesture in the same spirit and to arrange for joint peace marches and joint peace meetings because they have also condemned such sort of killings. I would like to appeal to the Akali leaders and all those who are interested in the movement: Give a command to the Sikh people to tell those who are indulging in this sort of killings that he is not a Sikh and that it is anti-Sikh act, it is an anti-national act. You should give this sort of command to those people. When they say that they cannot be browbeaten, you see, there is history behind it. Even during this earlier days, when Banda Bahadur of Punjab was chained and taken in the streets they never surrendered; and even when two thousand heads were put on the spearheads and paraded in the streets of Delhi, they never surrendered. They never surrendered, but they only sang a song... *{Time Bell Rings}* saying that they were born as Sikhs and that they were not afraid. Such is their temperament and such is their sentiment and it is in their blood. History also shows that, when Ranjit Singh was ruling, when the prisoners were paraded in the streets of Lahore, they were for communal tolerance and religious tolerance only. He gave orders to his generals not to harass any individual belonging to the Muslims or the opposing forces. Such were their sentiments. Not only Guru Nanak, but also the Tenth Guru of the Sikhs, preached communal harmony and tolerance. They are not for violence and they are not for killings. Before I conclude, Sir, I would like to request the Government to do one thing. Last time also, when I took part in the discussion on the same subject, the same request I made: You take into account the Anandpur Sahib Resolution wherein Mr. Tohra has said that it is a true federal framework for the Sikh nation.

" 'The date is significant' he said with quiet desperation. In 1699; the Tenth Guru created the Khalsa. In 1799, Maharaja Ranjit Singh occupied the throne of Lahore. In 1899 the Sikhs of the canal colonies, now in Pakistan, for the ' first time in India wrested some major concessions from the British rulers. In 1999, the Sikhs may well carve out a State of their own if the present-day rulers do not care to read the writing on the wall and accept the Anandpur Sahib resolution."

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE (Maharashtra): This question of Punjab Disturbed Areas Bill and the Armed Forces (Punjab and Chandigarh) Special Powers Bill should not be looked upon only from the angle of the situation in

"(a) if he is of opinion that it is necessary so to do for the maintenance of public order, after giving such due warning as he may consider necessary, fire upon or otherwise use force, even to the causing of death, against any person who is acting in contravention of any law or order for the time being in force in the disturbed area prohibiting the assembly of five or more persons or the carrying of weapons..." Even if there is an assembly of five or more persons, just like promulgation of section 144, the Home Minister has given the powers to police officers to fire. Therefore, a peaceful demonstration of any type will be prevented in Punjab. This sort of provision is there in the Criminal Procedure Code. The Sikh's are entitled to carry 'kirpans'. These powers may be misused. Very wide powers have been given. And there is the other thing, firearms and ammunition. Sir, these powers can be exercised under the ordinary law. I would like to ask the Home Minister whether these powers cannot be exercised under the Criminal Procedure Code by bringing *fin* section 144 into force in the Punjab disturbed areas. To give such powers to police officers or to a subordinate officer like a

[Shri Shridhar Wasudeo Dhabe]
magistrate, to fire and kill persons, will mean an end of individual liberty and individual rights.

Then, Sir, the Home Minister has given in the statement that Government has no confirmed evidence with regard to foreign interference. Therefore, if military training is taking place in Punjab it must be domestically. Why is it not possible to prevent it under the ordinary law? Where is the necessity for having extra powers? Even today if there is a riot the police can fire. And firing has taken place in Delhi yesterday. Therefore, when the Government itself says that there is no confirmed evidence with regard to foreign interference, where is the need of this legislation at present?

Sir, the most important question which has been raised by my friends, Shri Khushwant Singh and Shri Kaiyansundaram, is that Central forces are not being strengthened by the Government... (*Time Bell rings*). The main problem of Punjab should not be looked at from the point of view of Sikhs and Punjabis. Now, everybody in Punjab, whether he belongs to the ruling party or opposition, wants that Chandigarh should be given to Punjab. There is the similar problem in Maharashtra and Karnataka. Maharashtra wants Belgaum and Karnataka says no to it. The Congressmen in Punjab support that Chandigarh should be given to Punjab. It is the same thing with regard to the territorial disputes or water disputes. For God's sake and for the security of the country and for communal harmony, I would request the Home Minister and others not to give it a colour as if it is a fight between the Hindus and the Sikhs. They should have a proper administration and police force. Lastly, I would like to say that the remedy which has been proposed by the Minister is worse than the disease. Disease is different. Therefore, I am totally opposed to this Bill. I would request the Home Minister to withdraw them.

SHRI V. N. TIWARI (Nominated):
Mr. Vice-Chairman, Sir, with a very heavy heart, I am supporting the motion of the Home Minister regarding Punjab and

Chandigarh Disturbed Areas Bill, 1983. Like all Members I believe in people's government. But Punjab situation for a couple of years has been such that Punjabis now are interested in peace by any method they get it, whether through, popular Government or through central rule. Today, it is not the time for me to talk of the demands because we have been discussing these demands in this House for quite some time. I will only draw the attention of the hon. Home Minister to certain facts. Since we are having central rule and more powers with the Government, may I request, through you, that Deputy Commissioners be asked immediately to involve all the political parties in peace efforts? I find that it is now being run purely at administrative levels and all political workers, secular and democratic forces, who want to fight out these things are not being taken into confidence. The Government must take their support in this venture.

As I said, I will not talk of the demands today. I will not be blaming today the infighting of groups or political parties or anyone. But I want to draw the attention of the Home Minister with lot of respect and with lot of authenticity at my command that Punjab is passing through a crisis not because of political problems, but because of certain religious commitments and that too not of one or two or three years but of 5 years.

Certain people took pledges and did *aidas* that they had to kill certain persons. It is a religious commitment. They are the Akhand Kirtant Jathas and the Nirankaris. I would urge upon the Home Minister to settle these religious tensions. Even if you solve out the political problem, the crisis will not be over. I know Punjab history and the Sikh tradition. Till that settlement is made, we may not have peace in Punjab and such incidence and activities may be repeated in one form or another.

I have been talking in this House and of the invisible hand which has been disturbing Punjab. Sir, the time has come when all are convinced about it. We have been asking the Government to produce White Paper about it so that cer-

tain faqls which we know are made known to the entire country, that is, that these imperialist forces do not want India to be united. We want to demolish, their designs. The facts must be told to the people if you want to fight out this battle.

Sir, through you, I want to make a submission to the Central Government, Punjab must be immediately provided with more money for development purposes because their funds are being exhausted in law aid order. Until and unless you divert the energies of the people in developmental work, you will never have peace because on the one hand you are facing the law and order problem and on the other, if development is not there, the psychological tension in Punjab will increase and it will not decrease. Therefore, considering the problem of Punjab in the last few years, Punjab must be provided immediately with grants for development purposes, apart from facing the law and order situation. Sir, it is a fight between theocracy and democracy. Let us rise above party politics and fight out the theocratic forces who draw their inspiration from fundamentalism and the influence of Khomeini in Iran. If we want to really destroy their designs, we have to be one rather than parties or groups in this matter. If democracy does not remain in this country, no political party will ever be in a position to rule this country. Sir, like others, I condemn the murders of people in Punjab. I am pleased at one thing, and I want the Government to give a gallantry award to the Nihang S. Ajit Singh who saved the life of a Hindu at the risk of his own life because when communal frenzy is at its peak, to take the risk of your own life is something which should be appreciated by the Government and a gallantry award must be announced so that others also would draw inspiration to save the life of people in Punjab.

Lastly, Sir, I would submit that the Central Government suspended the Assembly in Punjab. The Party Government *compelled its own party* Government to leave the reign of Government. What more seriousness is required to

show that the Central Government is keen to have peace in Punjab? Therefore, I will appeal to my Opposition friends, and I appeal to my Akali friends also that violence is not in their interest in Punjab because it is only through goodwill of Hindus that they can ever rule Punjab. My friends were mentioning that whenever they come into power, they come through the goodwill of BJP or Bhartiya Jan Sangh. Therefore, if Akalis ever think of ruling Punjab, they must condemn violence, and they must wash their hands off from this thing so that the terrorists or the fundamentalists are fought by all who can rule Punjab whether by turns or for a longer period. Therefore, I support this Bill because Punjab requires at this moment peace more than party politics or ruling by this party or that party or by inviting other parties. Thank you, Sir.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO

(Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, Sir, it is a strange coincidence that the debate on Punjab is taking place at a time when the Birth Anniversary of that Great Guru, Guru Nanak, who was an apostle of peace, who was an apostle of tranquility among religions, was being celebrated. Sir, exactly, one and a half months ago, the three Ordinances were issued. By rising above party politics, let us all calmly consider whether the situation has improved in these 45 days since the Ordinances were issued on 7th October, 1983. We all are agreed that this has not happened. So, in effect, it means that whether these three laws are in the form of Ordinances or they are going to be enacted in Parliament and made Acts, the situation remains the same. Where does the solution lie? We, in Kashmir, have been always saying that we have a vested interest in peace in Punjab. Our artery to the rest of the country is through Punjab. Everything that comes to Kashmir comes through Punjab. So, we are deeply interested in peace in Punjab. But Mr. Minister, now you have been enforcing these laws for the last 45 days. Have you achieved anything? No. I would humbly tell you that the solution lies in political solution to the problem. Now, the other day while replying to the

[Shri Ghulam Rasool Matto] debate you stated that the doors of the Government are open. Does that mean anything? Why don't you invite them formally? Why do you stand on prestige? Why don't you formally invite them to a conference and sit with them and you do not come out of the conference room till a solution is reached? I would beg of you in the name of this country in the name of integrity of this country, to very kindly ponder on this important issue and consider the question of inviting them formally, and not informally. Do not ask the opposition parties or any intermediaries. Send a letter directly to Mr. Longewal, inviting him to a conference and then sit till a solution is obtained. The second point which I have to make, Mr. Minister, is with regard to these three Ordinances, which are going to be passed because of the majority that you should not under any circumstances use the provisions of the Armed Forces (Punjab and Chandigarh) Special Powers Bill. This is a very dangerous Bill. I have studied a recent book in which it was given as to how the martial law rule came to be a permanent feature in Pakistan. It was stated therein that with the Deputy Commissioners a Captain or a Major of the Army was associated. There was a tussle between the administrator and the Captain or the Major and eventually the army took over the administration of that particular district. I would beg of you not to use that provision. I would request you to keep this Bill in suspended animation.

Thirdly, Sir, you have made a statement the other day in this House with regard to the training camps in Jammu and Kashmir. I do not want to go into that controversy because I have written a letter to you in the matter and I have sought certain clarifications. I would be obliged if you could kindly reply to the points raised by me in that letter so that there was some light thrown on the subject. But let me tell you one thing. The Kashmiris, the people of Jammu and Kashmir, have taken a decision. You have to go into the history also. When the partition of the country took place, we voluntarily acceded to India. It was

not by force under any compulsion that we acceded to India, and we have taken a decision that we will fight the extremists, whether they are Hindu extremists or Muslim extremists or Sikh extremists. We will be one with you in fighting these elements who indulge in these activities (*Time Bell rings*).

The last thing that I want to say is that Mr. Ram Bhagat Paswan stated and advised the Home Minister that he should impose the President's rule in Jammu & Kashmir. I know our Home Minister, he is a suave and a sober-minded person.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Mr. Matto, the Home Minister will not take any decision on Mr. Paswan's advice. Therefore, you may leave it at that.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I may state that the people of Jammu & Kashmir have taken a firm decision in this regard that the people of Jammu & Kashmir will be ruled by their chosen representatives and nobody on earth can impose any rule on them, which is not supported by the people of Jammu and Kashmir.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Thank you, Mr. Matto.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: In the end, I again beg of the Home Minister to kindly find a political solution to this problem; do not stand on prestige; call the Akali leaders to a conference; do not come out of it—as they select Pope and do not come out of the room till Pope is selected; similarly do not come out of the room—till they sign the agreement. On all the outstanding issues of Punjab. This is my humble request. This is a request from the people of Kashmir in which Mahatma Gandhi found a ray of light in this country. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Shri J. P. Mathur, not here.

SHRI P. C. SETHI: Before I come to the actual Bills, I would express my deep anguish at the very sad incident that occurred on 18th November, 1983. My

heart goes out to the members of the bereaved families and I am sure the hon. Members will share these sentiments. I also trust that this hon. House would be one with me in appealing to the people of Punjab to keep in tact—as they always have—the bond of amity and brotherhood.

I would be making only one speech with regard to all these Bills because they are being considered together. As the House is aware, the extremists and secessionist elements had been indulging in violence and illegal activities in Punjab and Chandigarh. Such elements killed not only marked policemen and Nirankaris but also innocent persons in public places and in trains, buses, etc. Militant leaders had been inciting their followers to take to terrorist methods and encouraging illegal activities. Series of killings, use of explosives at congregations, attacks on innocent people had generated a serious sense of insecurity amongst the people. These events raised an apprehension of extensive disturbance to public peace and tranquillity and commissioning of capital crimes in Punjab and Chandigarh. They have been indulging in arson, murder, loot and dacoities etc. It has become necessary to adopt effective measures for the protection of the people in these areas. In order to enable the police forces and the armed forces to handle the situation effectively, wherever such problems arise hereafter, it has been considered necessary to enact these legislations.

This is a very simple measure and it only seeks to protect the steps that the police forces and armed forces might have to take in disturbed areas. It is not possible over such vast areas to depute civil magistrates to accompany the armed forces wherever there may be trouble, because it happens unexpectedly. They might intrude into any area, and action has to be taken immediately. The Bills only say that in any area which has been declared as disturbed area by the Central Government, the local Government, the police and armed forces may take steps in order to prevent the commissioning of the offence or in order to arrest the offenders. No power is transferred from the executive authority. The magistrates will be

there; the police is there. All other activities which are usually in the hands of civil administration will hereafter be in their hands. This is where it differs from the martial law where the entire administration is handed over to military and the civil administration does not remain.

Even in cases where arrests are made by armed forces any person arrested and taken into custody has to be made over to the officer in charge of the nearest police station with the least possible delay, together with details of circumstances of arrest. The police has to deal with the matter; the magistrate has to deal with the matter, and there is hardly anything which calls for son of interference with the executive powers of the State. While those powers have been taken, these will apply to such areas as have been declared disturbed areas after due consideration of the situation in that area. We have been compelled to undertake such a legislation because of certain elements who did not take a reasonable view of things and they have been attacking innocent people. It is with a view to put an end to such wanton raids that these Bills have been framed. Ordinances had to be issued because it became urgently imperative and immediately necessary. I can assure the House that we intend to use these powers with extreme caution and care and with greatest discretion.

7 P.M.

I hope these Bills framed to replace these Ordinances will be adopted by the House.

(Interruptions)

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Has the Government issued any notifications under this?

SHRI SUSHIL CHAND MOHUNTA: Sir, there is one question which has been posed by me and several other speakers. The Government does not know the extremists. They are not in a position to identify them. The CBI, the CID and other agencies have not been able to identify them. In such a case, who are the people against whom you are going to take all these steps? You say that powers have been given. Alright. But against whom you would use these powers? You do not know the person*—

SHRI P. C. SETHI: These powers will be used against extremists and law-breakers.

(Interruptions)

SHRI SHRIDHAR WASUDEO DHABE: Sir, these Ordinances have been in force for about 45 days. The power is given under these Ordinances to issue notifications. I would like to know whether any notifications had been issued.

^(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): You cannot make it a question and answer session.

SHRI P. C. SETHI: Whatever may be the area, when the Punjab Government feels it necessary, they will issue the notification for that area.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I shall now put the Resolution to vote.

(Interruptions)

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Sir, there is only one point. Several Members from this side have urged upon the Government to place a white paper before Parliament, detailing, giving details, so that the conscience of the nation....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): This point has been raised earlier also.

SHRI M. KALYANASUNDARAM: He has not replied to many of the points which have been raised by hon. Members from this side.

(Interruptions)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I do not think this question comes up. I shall now put the Resolution to vote. The question is;

"That this House disapproves of the Punjab Disturbed Areas Ordinance, 1983, (No. 5 of 1983) promulgated by the President on the 7th October, 1983."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I shall now put the amendment of Shri Shiva Chandra

Jha to vote. The question is:

"That the Bill to make better provision for the suppression of disorder and for the restoration and maintenance of public order in disturbed areas in Punjab, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely;—

1. Shri R. R. Morarka
2. Shri Biswa Goswami
3. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
4. Shri Sankar Prasad Mitra
5. Shri G. C. Bhattacharya
6. Prof. Sourendia Bhattacharjee
7. Shri Suraj Prasad
8. Shri R. Ramakrishnan
9. Shri Rameshwar Singh
10. Shri Hari Shankar Bhabhra
11. Shri Kalraj Mishra
12. Shri Dipen Ghosh
13. Shri Nepaldev Bhattacharya
14. Shrimati Mohinder Kaur.
15. Shri Shiva Chandra Jha

with instructions to report by the first week of the next Session."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I shall now put the motion moved by the hon. Minister to vote. The question is:

"That the Bill to make better provision for the suppression of disorder and for the restoration and maintenance of public order in disturbed areas in Punjab, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 1 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We shall not take up clause 1. There is one amendment by Shri Kaiyanasundaram.

SHRI M. KALYANASUNDARAM:
Sir, I beg to move;

"That at page 1, line 6, *after* the word and the figure 'October, 1983,' the words 'and to remain in force one year' be inserted."

Sir, I only want that this period should be restricted and it should be only for one year. Why does he not accept it?

SHRI P. C. SETHI: I am not accepting.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I shall now put the amendment to vote. The question is:

"That at page 1, line 6, *after* the word and the figure 'October, 1983,' the words 'and to remain in force for one year' be inserted."

The motion was negatived.

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): I shall now put clause 1 to vote. The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. C. SETHI; Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We shall now take up the second Bill. The Chandigarh Disturbed Areas Bill, 1983. First, I shall put the Resolution moved by Shri Jagdish Prasad Mathur to vote. The question is;

"That this House disapproves of the Chandigarh Disturbed Areas Ordinance, 1983 (No. 6 of 1983) promulgated by the President on the 7th October, 1983."

The motion was negatived.

11 so PS—if

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now I will put Mr. Shiva Chandra Jha's motion for reference of the Bill to Select Committee, to vote. The question is:

"That the Bill to make better provision for the suppression of disorder and for the restoration and maintenance of public order in disturbed areas in Chandigarh, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of the following members, namely:

1. Shri R. R. Morarka
2. Shri Biswa Goswami
3. Shri Shridhar Wasudeo Dhabe
4. Shri Sankar Prasad Mitra
5. Shri G. C. Bhattacharya
6. Prof. Sourendra Bhattacharjee
7. Shri Suraj Prasad
8. Shri R. Ramakrishnan
9. Shri Rameshwar Singh
10. Shri Hari Shankar Bhabhra
11. Shri Kalraj Mishra
12. Shri Dipen Ghosh
13. Shri Nepaldev Bhattacharya
14. Shrimati Mohinder Kaur
15. Shri Shiva Chandra Jha

with instructions to report by the first week of the next Session."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now I will put the motion.

The question is:

"That the Bill to make better provision for the suppression of disorder and for the restoration and maintenance of public order in disturbed areas in Chandigarh, as passed by the Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill'

Clause—1

SHRI M. KALYANASUNDARAM:
Sir, I move:

"That at page 1 line 7. *after* the word and figure 'October, 1983,' the words 'and to remain in force for one year' be *inserted*."

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title of the Bill.

SHRI P. C. SETHI: Sir, I move;

"That? that Bill be passed."

The question was proposed and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now I shall put the Statutory Resolution of Shri Shiva Chandra Jha to vote. The question is;

"That this House disapproves of the Armed Forces (Punjab and Chandigarh) Special Powers Ordinance, 1983 (No. 9 of 1983) promulgated by the President on the 15th October, 1983."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now I shall put the motion moved by the hon. Home Minister to vote. The question is:

"That the Bill to enable certain special powers to be conferred upon members of the armed forces in the disturbed areas in the State of Punjab and the Union territory of Chandigarh, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): We shall now take up clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 6 were added to the Bill.

New Clause 6A

SHRI M. KALYANASUNDARAM:
Sir, I move:

2. That at page 3, *after* clause 6, the following new clause be *inserted*, namely;—

'6A. The Governor of the State of Punjab and the Administrator of the Union territory of Chandigarh shall submit to the Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker of the Lok Sabha a monthly report giving details of the deaths, the seizures of properties, arms, ammunitions, explosive substances, vehicles, vessels, if any, in the course of, or as a result of, the enforcement of the provisions of this Act, for being placed on the Table of each House.' "

Sir, this is a very harmless amendment. In all the laws there is a clause to place on the Table of the House the rules framed under each law. Similarly, the report of the action taken by enforcing this Bill may be submitted to the House. After all, the House gives the extraordinary powers. Some deaths might have taken place, some arms might have been recovered, some properties might have been seized. So, why not give those details, to this House? We need not depend on the newspapers reports. We can be guided by the facts supplied by the Governor and the Administrator. That is why I have made this suggestion.

The question was proposed.

SHRI P. C. SETHI: From time to time, as and when occasion would need, we ourselves will come to the House and place all the facts before the House.

THE VICECHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now I will put the amendment moved by Shri Kaiyanasundaram to vote. The question is:

2. "That at page 3, *after* clause 6, the following new clause be *inserted*, namely:-

•6A. The Governor of the State of Punjab and the Administrator of the Union territory of Chandigarh shall submit to the Chairman of the Rajya Sabha and the Speaker of the Lok Sabha a monthly report giving details of the deaths, the seizures of properties, arms, ammunitions, explosive substances, vehicles, vessels, if any, in the course of or as a result of the enforcement of the provisions of this Act, for being placed on the Table of each House."

The motion was negatived.

Clauses 1 and 8 were added to the Bill.

Clause—I

SHRI M. KALYANASUNDARAM: Sir, I move:

"That at page 1, line 8, after the word and the figure 'October, 1983' the words 'and to remain in force for one year' be inserted."

The question was put and the motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): The question is:

"That clause 1 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1 was added to the Bill.

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI P. C. SETHI: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI DINESH GOSWAMI): Now the House stands adjourned to re-assemble at 11 a.m. tomorrow.

The House then adjourned at ten minutes past seven of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 22nd November, 1983.